



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2007, शनिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1929  
No. 14] NEW DELHI, JULY 15—JULY 21, 2007, SATURDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2007

आ. अ. 39.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2006, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वतीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा, नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है;

सारणी

क्रम सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	4—पार्क टाउन	श्री निवासन के.पी. 30 कोण्डल अय्यर स्ट्रीट, कोन्डीथोपे, चेन्नई-600079	कोई लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
2.	4-पार्क टाउन	पन्नीरसेलवम, सी पुराना नं. 16/नया नं. 31 विराजापुरम, तीसरी स्ट्रीट, पुलियानथोप्पु, चेन्नई-600012	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
3.	8-अन्ना नगर	श्रीमती प्रेमा वी सुपुत्री वीरामुथु पुराना नं. 3, नया नं. 5/1, वी.ओ.सी. स्ट्रीट, टी-नगर, चेन्नई-47	-वही-
4.	-वही-	हरि. टी, सुपुत्र तिरुवति, नं. 7, बाजानाई, कोइल स्ट्रीट, कोयेम्बेदु, चेन्नई-107	-वही-
5.	-वही-	सिवरामन एस. सुपुत्र सीथारमन, नं. 3 स्कूल स्ट्रीट, कोयेम्बेदु, चेन्नई-107	-वही-
6.	-वही-	नेगु, ए, सुपुत्र आनन्दन 66/25, म मनाडी स्ट्रीट, कोयेम्बेदु, चेन्नई-107	-वही-
7.	10-थाउजैन्डलाइट्स	पथंसारथी, नया नं. 9/2, पुराना नं. 7, रामा स्ट्रीट, नुनगमवक्कम, चेन्नई-600034	-वही-
8.	-वही-	महालिंगम एस, नया नं. 11/2, पुराना नं. 6, कुमारप्पा लेन, नुनगमवक्कम, चेन्नई-600034	-वही-
9.	-वही-	मनी. डी नया नं. 4, पुराना नं. 3/1, चोक्कालिंगम नगर, वेल्लाला तेयनामपेट, चेन्नई-600086	-वही-
10.	-वही-	मो. हाशिम, पुराना नं. 34/3 नया नं. 34, मॉडल स्कूल रोड थाउजैन्डलाइट्स, चेन्नई-600006	-वही-
11.	-वही-	मूर्ति पी. 1/16, टैन्क बन्द रोड, नन्दानम, चेन्नई-600035	-वही-
12.	-वही-	जयकुमार टी., 3/5 माम्बलम टैन्क बन्द रोड, नन्दानम, चेन्नई-600035	-वही-
13.	-वही-	शिवलिंगम, एम. फ्लैट नं. 15ए, दक्षिण गंगयौम्मन कोइल, फर्स्ट स्ट्रीट, चूलाइमेडु	-वही-
14.	-वही-	गुनासेकरन आर., 22/4 सत्य मुर्तिनगर, तेनामपेट, चेन्नई-600017	-वही-
15.	-वही-	चन्द्रशेकरन पी. 7/44, टैन्क बन्द रोड, नन्दानम, चेन्नई-600035	-वही-
16.	-वही-	सेल्वाराज के. 7/1, साउथ बौग रोड त्यागराय नगर, चेन्नई-600017	-वही-

1	2	3	4
17.	10-थाउजैन्डलाइट्स	नीलान जी, न्या नं. 6, पुराना नं. 7/1, डेनियल स्ट्रीट, त्यागराय नगर, चेन्नई-600017	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
18.	-वही-	भगवथी एम., पुराना नं. 248/1, नया नं 298/1 अवाई शानभुगम सलाई, चेन्नई-600086	-वही-
19.	11-चेपोक	मैं. मीरा ए. 6-बी, राजीव गांधी नगर, 2, स्ट्रीट अवाडी, चेन्नई-65	-वही-
20.	-वही-	रघुरमन, 37 नीली वीरासासी स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-5	-वही-
21.	-वही-	वेणुगोपाल डी.वी., सी-6 तमिलनाडु, स्लम क्लियरेन्स बोर्ड क्वार्टर्स, शिवलिंगपुरम, के.के. नगर, चेन्नई-78	-वही-
22.	25-उथिरामेरूर	कार्तिकेयन, डी, 88, अलादिपिल्लैयार, कोली स्ट्रीट, कांचीपुरम,	-वही-
23.	66-नट्टिका	राजेन्द्रन, जी., 1 हॉस्पिटल रोड, कांचीपुरम,	-वही-
24.	-वही-	लक्ष्मी नरसिम्हन, आर., 83, बिग स्ट्रीट, सेविलीमेडु (ग्राम), जिला कांचीपुरम	-वही-
25.	27-श्रीपेरूमबुडुर (अ.जा.)	शिवकुमार, जी. नं. 3, गोपाल नायडुसन्थु स्ट्रीट, वलाजाबाद, कांचीपुरम तालुक	-वही-
26.	34-रानीपेट	तमिलरासन एस., 48, दक्षिण सेदापेट स्ट्रीट, ग्राम अम्मूर, वालाजाट्ट, तालूक	-वही-
27.	53-मेलमलायानूर	छुरैक्कानु टी., क्ल्लाडीकुप्पा जिन्जी तालुक,	-वही-
28.	-वही-	मरियप्पन, एस., मोदैयूर, जिन्जी	-वही-
29.	58-विल्लुपुरम	वैकुण्ठन वी, अयानमयालयम, थिरुवामाथुर का मकान, पोस्ट टी.मेटुपालयम, विलुप्पुरम तालुक	-वही-
30.	-वही-	मो. अली जिन्ना एम., 46, वेडाप्पन कोइल स्ट्रीट, सिधेरिकारै, विलुप्पुरम	-वही-
31.	73-संकरपुरम	पूनाती सी., सुपुत्र चिन्नान, 80/32, अरुणथाथियार स्ट्रीट, अम्मापेट्टै, पो. वडाक्कानन्दल, कल्लाकुरिची तालुक, पिन-606401	-वही-

1	2	3	4
32.	73-संकरपुरम	अययाक्कानु एस., सुपुत्र साम्बान, 128 ई., साउथ स्ट्रीट, मुरारबाद व पोस्ट, संकरपुरम तालुक	कोई भी लेखा दाखिल नहीं ही किया।
33.	-वही-	अइयादुरै वी., सुपुत्र वेदटैकरन, मिडिल स्ट्रीट, ग्राम ओरंगानी, एस.वी. पालवेम पोस्ट, संकरपुरम तालुक, पिन-606401	-वही-
34.	-वही-	अन्नाम्माल (थिरुमथी) सी., पत्नी चिन्नाथाम्बी, अम्बेडकरस्ट्रीट आदि प्रविजर कॉलोनी, ग्राम-ओरंगानी, एस.वी. पालमम पोस्ट	-वही-
35.	85-तारामंगलम	मुत्थुसाकी पी., न्चीवायानुर, पाननकादुर (पो.ऑ.), युं. मारामंगलम, ओमालुर तालुक	-वही-
36.	-वही-	पलनिवेल एम., वार्ड 110, पुधु स्ट्रीट, लाइन 2, थारामंगलम, ओमालुर तालुक	-वही-
37.	86-ओमालुर	सुन्दरासजन एस., 289/43, थेनअलगापुरम, अलगापुरम पोस्ट, सलेम-4	-वही-
38.	86-ओमालुर	सुन्दरासजन एमं वर्ड 8, मेट्टुर मेन रोड, आर.के. नगर, ओमालुर	-वही-
39.	-वही-	चिन्नारामु पी., 2/295, हनुमन्थारायान कोविल, पोन्नानकाडु, पूसारिपट्टी पोस्ट, ओमालुर तालुक	-वही-
40.	-वही-	राजा, पेंडियान के. 3 अदिद्राविदारस्ट्रीट, दीवाट्टापट्टी पोस्ट, ओमालुर तालुक	-वही-
41.	89-सलेम-11	अरुमुगम, एस., सुपुत्र सेन्ना गाउन्डर, पुराना नं. 82/2, नया नं. 108ए1, सेंगल पेट्टाई, नाससोथिपट्टी, सलेम-4	-वही-
42.	94-रसिपुरम	गेविन्दासाकि आर 19 सी.वी. नगर रोड नं. 2, रसिपुरम	-वही-
43.	-वही-	व्रेणकटाचलम पी थोट्टिया नायकेट स्ट्रीट, थोट्टियामपट्टे, सी. एस., पुरम पोस्ट, रसिपुरम पोस्ट	-वही-
44.	96-नामक्कल (अ.जा.)	विजयमक्कल (टी.एम.टी.)ए, पत्नी/अरुलमानी, एच 8 पोर्नविज्ञा नगर तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, नामक्कोल	-वही-

1	2	3	4
45.	96-नामक्कल (अ.जा.)	रामादोस के.डी. सुपुत्र दुरैसामी, 2/154 पुदु स्ट्रीट, पेदुटपालमक, नमक्क	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया।
46.	-वही-	धानापाल टी. सुपुत्र थांगारासु, थिन्डामंगलम, नामक्कल	-वही-
47.	97-कपिलामलाइ	रांगासामी, सुपुत्र/एरंधनाइकर थोटियापट्टी नादानथाई पो. आ. परमाथी वेलुर तालुक, नामाक्कल जिला	-वही-
48.	99-संकारी (अ.जा.)	अशोक कुमार के.आर. 20 सी 9, पंचायत ऑफिस रोड, संकारी पोस्ट, संकारी तालुक	-वही-
49.	-वही-	रमेश ए. के. अक्कालामपट्टी पो. ऑ. वेलगोउन्डम पट्टी, वाया तिरुचेंगोड़े, तालुक	-वही-
50.	113-वेल्लाकोइल	अन्नामलाई वी, 1/35, कट्टुपालायम, नागामनयाकानपट्टी पोस्ट, कांगायम तालुक 638111	-वही-
51.	-वही-	अनबालामन सी 2/28, पेरालाइकट्टु वालासु वीरासोलापुरम पोस्ट, कांगायम तालुक 638701	-वही-
52.	-वही-	चन्द्रशेखरन सी, 27/77ए, नीथीयिन सूत्तियान इल्लाम, अरिवोलि नगर भूलानुर, धसपुरम तालुक	-वही-
53.	121-भवानी	क्न्नाइयान के.एम. सुपुत्र मारिअप्पन, 1/159 कादायसापट्टी पो. ऑ., अन्दिक्कुलाम, भवानी तालुक	-वही-
54.	-वही-	पेरूमल सी. सुपुत्र चिन्नुसामी नदुपल्लाथोट्टाम, काराट्टुवालासु,, मइलामपाडी, भवानी तालुक	-वही-
55.	-वही-	रंगासामी पी. सुपुत्र पेरूमल 58, थेनकट्टु, पालायम, बोम्मानपट्टी, कविन्दापाडी पो. ऑ.	-वही-
56.	122-अन्थियुर (अ.जा.)	पलानीसामी वी धासारियुर कालोनी, चिलाथामजीपालायम पोस्ट, अन्थियुर वाया, भवानी तालुक, इरोड जिला	-वही-
57.	122-अन्थियुर (अ.जा.)	गुरुसामी पी. शमीन टेलर, 340 बर्गर रोड, अन्थियुर, इरोड जिला	-वही-
58.	123-गोबिचेट्टिपालायम	वेल्लियानागोरी ए.आई.एन. 213/5 अन्ना नगर, वेल्लानकोविलय, गोबिचेट्टि पालायम तालुक	-वही-
59.	123-गोबिचेट्टिपालायम	मिनियान पी. 237, हरजन कॉलोनी, बोम्मानाइके नपालायम, ओडायुराई पो. ऑ., गोबिचेट्टिपालायम तालुक	-वही-

1	2	3	4
60.	124-भवानीसागर	रंगासामी बी.टी. 58, अम्बेडकर नगर, एन. वेल्लापलायम, केदारई पोस्ट, गोबिचेट्टिपलायम तालुक, इरोड जिला, पिन-638458	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया।
61.	-वही-	सुब्रामनियम के. 227, पुंगामपल्ली, वालीपलायम पोस्ट, सत्यमंगलम तालुक, इरोड जिला	-वही-
62.	-वही-	परमेशवरमूर्ति एम. 45/58, वी.ओ.सी. कालोनी, पीलामेडु, कोयम्बटूर 641004	-वही-
63.	-वही-	वेंकटराज कालैगनार नगर, पुंजै पुलियामपट्टी पोस्ट, सत्यमंगलम तालुक, इरोड जिला	-वही-
64.	125-सथ्यमंगलम	सेल्वान. के. सुपुत्र. कुमार 22/2, थोप्पुर, वाराथम पालायम, अथ्यामंगलम	-वही-
65.	129-पलानी (अ.जा.)	साम्यकन्नु पी. 5/6, देवान्डार स्ट्रीट, पालानी	-वही-
66.	130-ओड्डानचात्रम	श्री निवासन पी. पोट्टामपट्टी, कानाक्कनपट्टी पोस्ट, प्लानी तालुक, डिन्डिगुल जिला	-वही-
67.	-वही-	सुरेश एम. तीसरा बाई, एरम्मिनौकनपट्टी, प्लानी तालुक, डिन्डिगुल जिला	-वही-
68.	-वही-	मुरुगन एम. पोट्टामपट्टी, स्ट्रीट कानाक्कनपट्टी पोस्ट, प्लानी तालुक, डिन्डिगुल जिला	-वही-
69.	143-मदुराई केन्द्रीय	सुधा (टी.एम.टी.) पी, 96, राम नगर, चौथी स्ट्रीट, मदुराई-10	-वही-
70.	-वही-	काशिराजन जी, 317 (पुराना नं. 111ए) मेला मामी स्ट्रीट, मदुराई-1	-वही-
71.	145-समायनल्लुर (अ.जा.)	थामिलाप्पण्डी, एम.पी. कट्टामपट्टी पोस्ट, टी.पुडुपट्टी, थिरुमंगलम तालुक, मदुराई जिला	-वही-
72.	147-नाथम	मुरुगंसन ए. सुपुत्र आलागार, 5/48, नन्दावानापट्टी, डिन्डिगुल-624001	-वही-
73.	-वही-	अलामलाई ए. सुपुत्र अम्मासी गांधीनगर, नाथम, डिन्डिगुल जिला	-वही-
74.	-वही-	चन्द्रन सी. सुपुत्र चिन्नैय्या, 10/16 कक्कापट्टी एन, कोविलपट्टी, नाथम तालुक, डिन्डिगुल जिला	-वही-
75.	148-डिन्डिगुल	सिवनाथन के. सुपुत्र करुप्पन. एम. 137, कलिझाम्मन कोविल स्ट्रीट, बालाकृष्णापुरम, डिन्डिगुल-624005	-वही-
76.	-वही-	पालानीचामी. ए. सुपुत्र अरुमुगम, कालियाम्मन कोविल स्ट्रीट, के. धारुमाधुपट्टी, कामिवाडी, वाया, डिन्डिगुल तालुक	-वही-
77.	154-मारुगापुरी	कुमार टी. कुमार.बी.टी. 194, मारुथानथलाई, पानमपट्टी, दुलुप्पुर, तालुक, पुडुकोट्टाई जिला	-वही-

1	2	3	4
78.	154-मारूगापुरी	सक्थिवेल सी. 3/1897, पन्नानकोम्बु पोस्ट, मानप्पराई तालुक	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया।
79.	-वही-	आलागार पी. पन्नान कोम्बु पोस्ट, मानप्पाराम तालुक	-वही-
80.	-वही-	पण्डिथुराई एम. पन्नान कोम्बु पोस्ट, मानप्पाराम तालुक	-वही-
81.	-वही-	फ्रॉनिरू ए. एम 3/52, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पोनविज्ञानगर, वागुरामपट्टी, नामाक्कल डी.टी.	-वही-
82.	-वही-	पेरियासामी वी. नल्लापोमामपट्टी, कारूपपुर, मानप्पाराम तालुक	-वही-
83.	157-उप्पिलियापुरम (अ.ज.जा.)	रवि. पी. 4/430, सूक्कालमापट्टी कोम्बाई वेरिवेट्टीपालायम पंचायत, नागानल्लुर पोस्ट, थुराथुर तालुक	-वही-
84.	171-मइलादुथुराई	अमीनुल्लाह ए.एम.एन. 128/3, जे.एम.एच. मेन रोड, 40, निडुर ग्राम, मइलादुथुराई तालुक, नागापट्टिनम जिला	-वही-
85.	-वही-	राजेन्द्रन एस. पेरिया कॉलोनी, स्ट्रीट-91, मरूथुर धेराञ्जुन्दूर पोस्ट, मइलादुथुराई तालुक, नागापट्टिनम जिला	-वही-
86.	192-आलंगुडी	करुप्पैययपा के. 458, अम्बालपुरम कॉलोनी, कविनाडु पश्चिम पुडुकोट्टाई	-वही-
87.	-वही-	जीवनधाम आर. 5/2, पिलाविदुथि थेरक्कु स्ट्रीट, पिलाविदुथि आलंगुडी	-वही-
88.	-वही-	सिवाकुमार, दुराई 1/123, थिरूवल्लुवर नगर, कुलामंगलम वाडाक्कु, आलंगुडी	-वही-
89.	204-अरूपुकोट्टाई	कृष्णा गांधी, पी. सुपुत्र पोन्नुचामी 61, बीच होम एवेन्यू, बीसेट नगर, चेन्नई-90	-वही-
90.	-वही-	वर्निआ थेवर, एम सुपुत्र मुथुचामी थेवर, एस. धोप्पुर, चिथुमून्नादादप्पु पोस्ट, करिआपट्टी तालुक	-वही-
91.	-वही-	सेल्वराज एस. सुपुत्र सुन्दरम, 7 नेताजी स्ट्रीट पखई, मदुरई जिला	-वही-
92.	205-सट्टूर	राजेन्द्रन आर 1-180, नारूगापुरम, मसरपट्टि पोस्ट, नेम्मेनि, सट्टूर तालुक	-वही-
93.	-वही-	सनरालिंगम एस.जन्. के 4, वेल्लइकोट्टाई, वेस्ट कार स्ट्रीट, अरूपुकोट्टाई टाउन	-वही-
94.	-वही-	सेतुरामलिंगम जी. 2/37, साउथ स्ट्रीट, नाथयुपट्टि, सट्टूर तालुक	-वही-

1	2	3	4
95.	205-सदर	अमुधा टी. एस. 49, वेल्लइकोट्टई, वेस्ट कार स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई टाउन	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया।
96.	-वही-	कन्दासानि वी. 21, अन्नानगर, वेल्लाइकोट्टई, अरुप्पुकोट्टई	-वही-
97.	-वही-	सेल्वम सवुरिराज जे. सियुमून त्रादइप्पु, करिअर्पाट्ट तालुक	-वही-
98.	-वही-	बलमुरुगन एन. 37 पासुम्पोन्नु थुरामलिंगम स्ट्रीट, तिरुचुलि रोड, अरुप्पुकोट्टई	-वही-
99.	-वही-	रामचन्द्रन आर. 480, तिरुचुलि रोड, अरुप्पुकोट्टई	-वही-
100.	206-विरुछुनगर	सेन्वम् ए. 18/46 ई 1, सुक्किरवारपट्टि रोड, मुथुमारि नगर, थिरुथन्नाल	-वही-
101.	121-कोईलपट्टी	कोविलसेल्वन के. 10/5 कुमारपुरम., उथुपट्टि पोस्ट, कोविलपट्टि तालुक	-वही-
102.	-वही-	सेमसुंदरम जी. 2/100 बी, केत्तिलापुरम ग्राम कालनगरपट्टि पोस्ट, कोविलपट्टि तालुक	-वही-
103.	-वही-	चेल्लदुरई एस. 27, मुथुरामलिंगर स्ट्रीट, कोईलपट्टी,	-वही-
104.	224-सन्तगुलम	डायमंड राजा वी. 44, नेल्लायम सलई, पेम्बूर, चेन्नई-600011	-वही-
105.	-वही-	पथंसाराथे, एन. 1, फास्ट कैलासपुरम स्ट्रीट, नजारथे-628617, तिरुचेन्दुर तालुक, थूथुक्कुडि जिला	-वही-
106.	-वही-	माइकल एथनी एइन रोज.टी. 2/185, कोइल स्ट्रीट, नोत्तिकुलम, चेट्टिकुलम पोस्ट, सददनकुलम तालुक, थूथुक्कुडि जिला	-वही-
107.	225-तिरुचेन्दूर	परिसमुथु एस. 3/51 साउथ स्ट्रीट, नल्लूर, तिरुचेन्दूर तालुक	-वही-
108.	-वही-	नटराजन एम. 27, वडक्कु मारि, अम्मन कोइल स्ट्रीट, तिरुचेन्दुर-628215	-वही-
109.	-वही-	मुरुगेशन. टी. 37/30, वेस्ट स्ट्रीट सान्थइयादियुर, उदनगुडि, तिरुचेन्दूर तालुक	-वही-
110.	-वही-	विवेकानन्दसेकर एन. 4/3 ईस्ट स्ट्रीट, नाथन किनारु, पल्लिपाथु, तिरुचेन्दूर तालुक	-वही-
111.	226-क्षीवेकुन्टम्	कुमार, जी. 168 ई, तिरुवल्लुवर नगर, वगलकुलम, थूथुक्कुडि जिला	-वही-
112.	-वही-	फ्रेडरिक स्टेनली. एस. 999 अरुन्चलपुरम, डायना स्ट्रीट, तरुनेल्वेलि जिला	-वही-
113.	228-कन्याकुमारी	एलंक्स सान्था सेकर ए. पार्क स्ट्रीट, अजगप्पपुरम पोस्ट	-वही-



1	2	3	4
114.	228-कन्याकुमारी	उथामन टी. पेरूमल कोइल थेरुडु, उप्पुनकोट्टई पोस्ट, बोडि तालुक, थेनि जिला	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया।
115.	229-नागरकोइल	चिदम्बरम पिल्लाई.पी. सुपुत्र, सी पेरूम पिल्लई 7/41 एच. एन.जी.ओ. कॉलोनी, कोट्टार पोस्ट, नागरकोइल	-वही-
116.	-वही-	सुरेश, जे. सुपुत्र जानसन, 49ए। कुमारी वीवर्स कॉलोनी, नागरकोइल-3	-वही-
117.	230-कोलाचेल	करूणाकरन 27/10-56 एरूमुकाडु व पो.ओं.	-वही-
118.	-वही-	कुमारसामी एच. 3/34 पेरुविलै व पो.ओं.	-वही-
119.	-वही-	बलकृष्णन् सी. 6/48 धथिरियोडु, नेयूर पो.ओं.	-वही-
120.	231-पद्मनायपुरम	एंधनी एम 4/165, कोरथट्टविलई मेंलोड, एलेन्कोड पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	-वही-
121.	-वही-	थॉमस एस. पेरूनथिलाम्बु, वेलिमलाई पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	-वही-
122.	-वही-	लाल धेन्सम, वाई अरूगुविलई, मारूथूर कुरिधि, मारूथूरकुरिचि पोस्ट,	-वही-
123.	233-विलावन्कोडे	देवदास, एल. सुपुत्र लेक्श्मनन (लक्ष्मणन) कुरिन्जन विलई, मीनाचेल व पो.ओं.	-वही-
124.	-वही-	फ्रैंकलिन . एफ. सुपुत्र फर्नान्डीज, कण्मणि इल्लम, आर.सी. स्ट्रीट, कलिअक्कविलई पो.ओं.	-वही-
125.	234-किल्लियूर	सुरेश सी. सुपुत्र चिन्नथनामय, पोन्नरई, सधयनगर व पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	-वही-
126.	-वही-	रधुअनंत राज, ए सुपुत्र अमलदास, वेल्लियाविलई, पालप्पल्लम पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	-वही-
127.	-वही-	जस्टिन केलिक्स, ए सुपुत्र एण्ड्यू केलिक्स, कोल्लनविलई, कारुनगल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	-वही-
128.	-वही-	स्टेन्ली जिवि राज, टी. सुपुत्र थॉमसन, परक्कनविलई, कीजकुलम पोस्ट, कन्याकुमारी जिला	-वही-

[सं. 76/तमिलनाडु-विधानसभा/2007]

आदेश से,

तपस कुमार, सचिव

8069 GI/07-3

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

New Delhi, the 9th July, 2007

**O.N. 39.**—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the Tamil Nadu Legislative Assembly, 2006 held from the Constituency specified in the column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failures even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the contesting candidate (S/Shri/Smt.)	Reason for disqualification
1	2	3	4
1.	4 Park Town	Srinivasan, K. P. 30, Kondal Iyer Street, Kondithope, Chennai-600079.	Accounts not lodged at all.
2.	-do-	Panneerselvam, C Old No. 16/New No. 31, Sivarajapuram 3rd Street, Pulianthoppu, Chennai-600012	-do-
3.	8-Anna Nagar	Prema V, D/o. Veeramuthu, Old No. 3, New No. 5/1, V.O.C. Street, T. Nagar, Chennai-17.	-do-
4.	-do-	Hari T. S/o. Thiruvathi, No. 7 Bajanai Koil Street, Koyembedu, Chennai-107	-do-
5.	-do-	Sivaraman S. S/o. Seetharaman, No. 3 School Street, Koyembedu, Chennai-107	-do-
6.	-do-	Nagu A. S/o. Anandan, 66/25, Mannadi Street, Koyembedu, Chennai-107	-do-
7.	10-Thousandlights	Parthasarathi. New No. 9/2, Old No. 7, Rama Street, Nungambakkam, Chennai-600034	-do-
8.	-do-	Mahalingam, S. New No. 11/2, Old No. 6, Kumarappa Lane, Nungambakkam, Chennai-600034	-do-
9.	-do-	Mani, D. New No. 4, Old No. 3/1, Chockkalingam Nagar, Vellala Teynampet, Chennai-600086	-do-

1	2	3	4
10.	10-Thousandlights	Md. Hashim, Old No. 34/3, New No. 34, Model School Road, Thousandlights, Chennai-600006	Accounts not lodged at all.
11.	-do-	Murthy P. 1/16, Tank Bund Road, Nandanam, Chennai-600035	-do-
12.	-do-	Jayakumar, T. 3/5, Mambalam Tank Bund Road, Nandanam, Chennai-600035	-do-
13.	-do-	Shivaligam, M. Flat No. 15A, South Gangaianman Koil First Street, Choolaimedu, Chennai-600094	-do-
14.	-do-	Gunasekaran, R. 22/4 Sathiyamurthy Nagar, Teynampet, Chennai-600017	-do-
15.	-do-	Chandra Sekaran, P. 7/44, Tank Bund Road, Nandanam, Chennai-600035	-do-
16.	-do-	Selvaraj, K. 7/1, South Boag Road, Thiyagaraya Nagar, Chennai-600017	-do-
17.	-do-	Neelan, G. New No. 6, Old No. 7/1, Daniel Street, Thiyagaraya Nagar, Chennai-600017	-do-
18.	-do-	Bhagavathi, M. Old No. 248/1, New No. 298/1, Avvai Shanmugam Salai, Chennai-600086	-do-
19.	11-Chepauk	Mohamed Meera A. 6-B, Rajiv Gandhi Nagar, 2nd Street, Avadi, Chennai-65	-do-
20.	-do-	Raghuraman, 37, Neeli Veerasami Street, Triplicane, Chennai-5	-do-
21.	-do-	Venugopal D. V. L-6, Tamil Nadu Slum Clearance Board Quarters, Sivalingapuram, K. K. Nagar, Chennai-78	-do-
22.	25-Uthiramerur	Karthikeyan, D. 88, Aladipillaiyar Koil Street, Kancheepuram.	-do-
23.	-do-	Rajendran, G. 1, Hospital Road, Kancheepuram.	-do-
24.	-do-	Lakshmi Narasiman, R. 83, Big Street, Sevilimedu (Village), Kancheepuram District.	-do-

1	2	3	4
25.	27- Sriperumbudur (SC)	Sivakumar, G. No. 3, Gopal Naidu Santhu Street, Walajabad, Kancheepuram Taluk.	Accounts not lodged at all.
26.	34 Ranipet	Tamilarasan S. 48, South Saidapet Street, Ammoor Village, Wallajah Taluk.	-do-
27.	53-Melmalayanur	Duraikkannu, T. Kalladikuppam, Gingee Taluk.	-do-
28.	-do-	Mariyappan, S. Modaiyur, Gingee.	-do-
29.	58 Viluppuram	Vaikunthan. V. Ayanampalayam, H/o Thiruvamathur, T. Mettupalayam Post, Viluppuram Taluk.	-do-
30.	-do-	Mohamed Ali Jinna. M, 46, Vedappan Koil Street, Sitherikarai, Viluppuram	-do-
31.	73-Sankarapuram	Poobathi. C. S/o Chinnan, 80/32, Arunthathiyar Street, Ammappettai, Vadakkanandal Post, Kallakurichi Taluk, Pin-606207	-do-
32.	-do-	Ayyakkannu. S. S/o Samban, 128. E. South Street Murarbad & Post, Sankarapuram Taluk.	-do-
33.	-do-	Aiyadurai. V. S/o Vettaikaran. Middle Street, Oorangani village, S. V. Palayam Post, Sankarapuram Taluk, Pin-606401	-do-
34.	-do-	Annammal, C. W/o Chinnathambi, Ambedkar Street, Adi Dravidar Colony, Oorangani Village, S. V. Palayam Post, Sankarapuram Taluk, Pin-606401.	-do-
35.	85 Tharamangalam	Muthusamy. P. Nachivayanur, Panankattur (P.O.) U, Maramangalam, Omalur Taluk.	-do-
36.	-do-	Palanivel. M. Ward-11, 9. Pudhu Street, Line-2, Tharamangalam, Omalur Taluk	-do-
37.	86-Omalur	Soundararajan. M. 289/43, Then Alagapuram, Alagapuram Post, Salem-4	-do-
38.	-do-	Sundararajan. S. Ward, 8, Mettur Main Road, R. K. Nagar, Omalur.	-do-

1	2	3	4
39.	86-Omalur	Chinnarasu, P. 2/295, Hanumantharayan kovil, Ponnankadu, Poosaripatti Post, Omalur Taluk.	Accounts not lodged at all.
40.	-do-	Raja, @Pandiyar, K. 3, Adidravodar Strteet, Deevattipatty Post, Omalur Taluk	-do-
41.	89-Salem-II	Arumugam, S. S/o Senga Gounder, Old No. 82/2, New No. 108A1, Sengalpettai, Narasothipatty, Salem-4	-do-
42.	94-Rasipuram	Govindhasamy. R. 19C. V. Nagar Road No.-2. Rasipuram	-do-
43.	-do-	Venkatachalam. P. Thottiya Naicker Street, Thottiyampatty, C S Puram Post, Rasipuram Taluk	-do-
44.	96-Namakkal (SC)	Vijayambal (TMT). A. W/o, Arulmani H8 Ponvizha Nagar, Tamil Nadu Housing Board, Namakkal.	-do-
45.	-do-	Ramadoss. K. D. S/o, Duraisamy, 2/154 Pudu Street, Pettapalayam, Namakkal.	-do-
46.	-do-	Dhanapal. T. S/o, Thangarasu, Thindamanagalam, Namakkal	-do-
47.	97-Kapilamalai	Rangasamy, S/o, Errappanaicker, thotiyapatti, Nadanthai P. O. Parmathi Velur Taluk, Namakkal District	-do-
48.	99-Sankari (SC)	Ashok Kumar K. R. 20 C9, Panchayat Office Road, Sankari Post, Sankari Taluk.	-do-
49.	-do-	Ramesh A. K. Akkalampatty P. O., Velagoundam Patty Via, Tiruchengode Tk.	-do-
50.	113-Vellakoil	Annamalai. V. 1/35, Kattupalayam, Nagamanayakanpatti (Post), Kangayam Taluk-638111	-do-
51.	-do-	Anbalagan. C. 2/28, Peralaikattuvalasu, Veerasolapuram (Post), Kangayam Taluk. 638701	-do-
52.	-do-	Chandrasekaran. C. 27/77a, Neethiyin Soorian Illam, Arivolinagar, Moolanur, Dharapuram Taluk.	-do-
53.	121-Bhavani	Kannaiyan, K.M. S/o Mariappan, 1/159, Kadayampatti (PO) Andikulam, Bhavani TK	-do-

1	2	3	4
54.	-do-	Perumal, C. S/o, Chinnusamy, Nadupallathottam, Karattuvalasu, Mylampadi, Bhavani TK	Accounts not lodged at all.
55.	-do-	Rangasamy, P S/o, Perumal, 58, Thenkattu Palayam, Bommanpatti, Kavindapadi (PO)	-do-
56.	122 Anthiyur (SC)	Palanisamy, V. Dhasariyur Colony, Chinnathambipalayam Post, Anthiyur Via, Bhavani Taluk, Erode District	-do-
57.	-do-	Gurusamy, P. Shameen tailor, 340 Burgur Road, Anthiyur, Erode District	-do-
58.	123 Gobichettipalayam	Velliyangiri A.R.S. 213/5 Annanagar, Vellankovil, Gobichettipalayam TK.	-do-
59.	-do-	Miniyan P. 237, Harijan Colony, Bommanaickenpalayam Odathurai (PO), Gobichettipalayam TK	-do-
60.	124 Bhavanisagar	Rangasamy, V. T. 58, Ambedkar Nagar, N. Vellalapalayam Kedarai (Post), Gobichettipalayam Taluk, Erode District, Pine 638458.	-do-
61.	-do-	Subramanian, K. 227, Pungampalli, Valipalayam (Post), Sathyamangalam Taluk, Erode District.	-do-
62.	-do-	Parameswaramurthy, M. 45/58, V.O.C. Colony, Peelamedu, Coimbatore 641004	-do-
63.	-do-	Venkatraj, Kalaiggar Nagar, Punjai Puliampatti (Post), Sathyamangalam Taluk, Erode District.	-do-
64.	125 Sathyamangalam	Selvan K. S/o, Kumaran, 22/2, Thoppur, Varatham Palayam, Sathyamangalam.	-do-
65.	129-Palani (SC)	Samykanu, P. 5/6 Devandrar Street, Palani.	-do-
66.	130-Oddanchtram	Srinivasan, P. Pottampatti, Kanakkanpatti. (Post) Palani Taluk, Dindigul District.	-do-
67.	-do-	Suresh M. 3rd Ward, Errammanaickenpatti, Palani Taluk, Dindigul District.	-do-
68.	-do-	Murugan, S. Pottampatti East Street, Kanakkanpatti (Post), Palani taluk, Dindigul District.	-do-

1	2	3	4
69.	143—Madurai Central	Sudha. (Tmt.) P. 96, Ram Nagar, Fourth Street, Madurai-10	Accounts not lodged at all.
70.	-do-	Kathiravan. G. 317 (Old No. 111A), Mela Masi Street, Madurai-1	-do-
71.	145—Samayanallur (SC)	Thamilappandi, M.P. Katrampatti Post T. Pudupatti, Tirumangalam Taluk, Madurai District.	-do-
72.	147—Natham	Murugesan, A. S/o Alagar, 5/48 Nandavanapatti, Dindigul-642001.	-do-
73.	-do-	Annamalai, A. S/o Ammasi, Gandhi Nagar, Natham, Dindigul District.	-do-
74.	-do-	Chandran, C., S/o Chinnaiiah 10/16, Kakkapatti N. Kovilpatti, Natham Taluk, Dindigul District.	-do-
75.	148-Dindigul	Sivanathan, K. S/o. Karuppan, M. 137, Kaliyamman Kovil Street, Balakrishnapuram, Dindigul-624005.	-do-
76.	-do-	Palanichamy, A. S/o. Arumugam, Kaliyamman Kovil, Street, K. Dharumathupatti, Kannivadi, Via, Dindigul Taluk.	-do-
77.	154-Marungapuri	Kumar, T@ Kumar, B.T. 194, maruthanthali, Panampatti, Ilupur Tk, Pudukotai, Dt.	-do-
78.	-do-	Sakthivel. C 3/1897, Pannankombu (Post), Pannankombu, Manapparai Tk.	-do-
79.	-do-	Alagar, P Pannankombu (Post), Mannapparai Tk.	-do-
80.	-do-	Pandithurai, M. Pannankombu (Post), Mannapparai Tk.	-do-
81.	-do-	Francis, A M3/52, Tamilnadu Housing Board, Colony, Ponvizhanagar, Vagurampatti, Namakkal DT.	-do-
82.	-do-	Periasamy V. Nallaponnampatti, Karuppur, Manapparai TK.	-do-
83.	157-Uppiliyapuram (ST)	Ravi. P. 4/430, Sookkalampatti Kombai, Vairichettipalayam Panchayat, Naganallur Post, Thuraiyur Taluk.	-do-

1	2	3	4
84.	171-Mayiladuthurai	Ameenullah, A.M.S. 128/3, J.M.H. Main Road, 40, Nidur Village, Mayiladuthurai Taluk, Nagapattinam District.	Accounts not lodged at all.
85.	-do-	Rajendran, S. Periya Colony Street 91, Maruthur, Therazhundur Post, Mayiladuthurai Taluk, Nagapattinam District.	-do-
86.	192-Alangudy	Karuppaiah, K. 458, Ambalpuram Colony, Kavinadu West, Pudukkottai.	-do-
87.	-do-	Jeevanandham, R. 5/2, Pilaviduthi, Therkku Street, Pilaviduthi Alangudy.	-do-
88.	-do-	Sivakumar, Durai. 1/123, Thiruvalluvar Nagar, Kulamangalam Vadakku, Alangudy.	-do-
89.	204-Aruppukottai	Krishna Gandhi, P. S/o Ponnuchamy, 61, Beach Home Avenue, Besant Nagar, Chennai-90.	-do-
90.	-do-	Kanniah Thevar, M. S/o. Muthuchamy Thevar, S. Thoppur, Chithumoontradaippu Post, Kariapatti, Taluk.	-do-
91.	-do-	Selvaraj, S. S/o Sundaram, 7, Nethaji Street, Paravai, Madurai District.	-do-
92.	205-Sattur	Rajendran, R. 1-180, Narugapuram, Masarpatti Post, Nenmeni Sattur Taluk.	-do-
93.	-do-	Sankaralingam, S.S.K. 49, Vellaikottai, West Car St. Aruppukottai Town.	-do-
94.	-do-	Sethura Malingam, G. 2/37, South Street, Nathathupatti, Sattur, Taluk.	-do-
95.	-do-	Amudha, S. 49, Vellaikottai, West Car Street, Aruppukottai Town.	-do-
96.	-do-	Kandasamy, V. 21, Anna Nagar, Vellaikottai, Aruppukottai.	-do-
97.	-do-	Selvam Savuriraj J. Sithumoon Tradaippu, Kariapatti Taluk.	-do-



1	2	3	4
98.	205-Sattur	Balamurugan, N. 37, pasumponmu. Thuramalingam Street, Tiruchuli Road, Aruppukottai.	Accounts not lodged at all.
99.	-do-	Ramachandran, R. 480, Tiruchuli Road, Aruppukottai.	-do-
100.	206-Virudhunagar	Selvam, A. 18/46E1, Sukkiravarpatti Road, Muthumari Nagar, Thiruthangal.	-do-
101.	212-Kovilpatti	Kovilselvan, K. 10/5 Kumarapuram, Uthupatti Post, Kovilpatti Taluk.	-do-
102.	-do-	Somasundaram. G. 2/100-B, Ketchilapuram Village, Kalangaraipatti post, Kovilpatti Taluk.	-do-
103.	-do-	Chellandurai, S. 27, Muthuramalingar Street, Kovilpatti.	-do-
104.	224-Sattankulam	Diamond Raja, V. 44, Nelvalal Salai, Perambur, Chennai-600011.	-do-
105.	-do-	Parthasarathy, N. 1, 1st Kailasapuram Street, Nazareth-628617, Tiruchendur Taluk, Thoothukkudi District.	-do-
106.	-do-	Micheal Antony Ain Rose, T. 2/185, Koil Street, Notchikulam, Chettikulam Post, Sattankulam Taluk, Thoothukkudi District.	-do-
107.	225-Tiruchendur	Parisamuthu, S. 3/51, South Street, Nallur. Tiruchendur Taluk	-do-
108.	-do-	Nadarajan, M. 27, Vadakku Mari, Amman Koil Street, Tiruchendur, 628215	-do-
109.	-do-	Murugesan, T. 37/30, West Street, Santhaiyadiyur, Udangudi, Tiruchendur Taluk	-do-
110.	-do-	Vivekanandhasekar, N. 4/3, East Street, Nathan Kinaru Pallipathu, Tiruchendur Taluk	-do-
111.	228-Srivaikuntam	Kumar, G 168E, Tiruvalluvar Nagar, Vagalkulam, Thoothukudi District	-do-
112.	-do-	Fredrick Stanley. S 999 Aruchalapuram, Dayana St. Tirunelveli Dist.	-do-

1	2	3	4
113.	228 Kanniyakumari	Alex Santha Sekar A. Park Street, Azhagappapuram Post.	Accounts not lodged at all.
114.	-do-	Uthaman, T. Perumal Koil Theru, Uppukottai Post, Bodi Taluk, Theni District.	-do-
115.	229 Nagercoil	Chidambaram Pillai, P. S/o, C. Perumal Pillai, 7/41-H3, N.G.O. Colony, Kottar Post, Nagercoil.	-do-
116.	-do-	Suresh, J, S/o Johnson, 49-A1, Kumari Weavers Colony, Nagercoil-3	-do-
117.	230 Colachel	Karunakaran 27/10-56, Erumpukadu & P.O.	-do-
118.	-do-	Kumarasamy, H. 3/34 Peruvilai, & P.O.	-do-
119.	-do-	Balakrishnan, C. 6/48 Bathiriyodu, Neyoor, P.O.	-do-
120.	231 Padmanabhapuram	Anthony, M. 4/165, Korathattuvilai, Mylode, Alencode Post, Kanniyakumari District.	-do-
121.	-do-	Thomas, S. Perunchilambu, Velimalai Post, Kanniyakumari District.	-do-
122.	-do-	Lal Bensam, Y. Aranguvilai, Maruthoorkurichi, Maruthoorkurichi Post.	-do-
123.	233 Vilacancode	Devaddhas, I. S/o Lekshmanan, Kuzhinjan Vilai Meenachel P. O.	-do-
124.	-do-	Franklin, F. S/o Fernandez. Kanmani Illam R.C. Street, Kaliakkavilai P. O.	-do-
125.	234 Killiyoor	Suresh, C. S/o, Chinnathangam Ponnarai, Sahayanager & Post Kanniyakumari District	-do-
126.	-do-	Regu Anantha Raj, A. S/o, Amaladhas Velliyavilai, Palappallam Post, Kanniyakumari District	-do-
127.	-do-	Justin Felix, A. S/o, Andrew Felix, Kollanvilai, Karungal Post Kanniyakumari District.	-do-
128.	-do-	Standy Jibi Raj, T. S/o, Thomson, Parakkanvilai, Keezhkulam Post, Kanniyakumari District.	-do-

[No. 76/TN-LA/2007]

By Order,  
TAPAS KUMAR, Secy.